



1-मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.10.2022 को वादी श्री महमूद अली पुत्र श्री अहमद अली नि० आशियाना प्रथम काँठ रोड थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP 21 AT-9806 को चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 898/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 27.10.2022 की रात्रि को उ०नि० श्री अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम मोहम्मदपुर ध्यान सिंह थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद को मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP 21 AT- 9806 सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

2-दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.10.2022 को वादिनी निवासी थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त गण द्वारा गाली गलौच व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने तथा घर में घुसकर वादिनी की बहन के कपड़े फाड़ देने व दुष्कर्म करने का प्रयास करने तथा छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 891/2022 धारा- 147/452/323/504/354ख/376/511/506 भादवि व धारा- 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को उ०नि० श्री मृदुल कुमार थाना सिविल लाईन्स ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त ब्रजभान पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम अचोली थाना हयातनगर, सम्भल को गिरफ्तार किया।

3-लैपटॉप चोरी का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2022 को वादी श्री अवधेश मैठाणी पुत्र श्री वासुदेव मैठाणी निवासी भानियावाला, देहरादून वर्तमान में SSE/Signal के पद पर DRM office Northern Railway, मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा लैपटॉप (Apple Macbook Air 13) को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 380/2022 धारा- 380 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को उ०नि० श्री कृष्ण कुमार थाना सिविल लाईन्स ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र स्व० गंगा राम निवासी ज्ञानी वाली बस्ती लाईन्सपार थाना मझोला, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया लैपटॉप (Apple Macbook Air 13) बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

4- मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दि० 27-10-2022 को वादी श्री शरद रस्तौगी पुत्र श्री सुभाष रस्तौगी निवासी मौहल्ला साहू मण्डी चौक थाना कोतवाली नगर, मुरादाबाद ने मोटरसाइकिल सं० UP21-AP- 4214 की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 174/2022 धारा- 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28-10-2022 को उ०नि० श्री अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त गिरिराज उर्फ बंटी पुत्र शिवचरन सिंह निवासी सिकन्दरपुर चौकी खदाना थाना मझोला, मुरादाबाद को मोटरसाइकिल सं० UP21-AP- 4214 सहित गिरफ्तार किया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

5-जान से मारने की नियत से हमला करने के 03 आरोपी गिरफ्तार, थाना मुगलपुरा:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.10.2022 को वादिनी निवासी थाना मुगलपुरा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पुत्र के साथ गाली गलौच, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व जान से मारने की नियत से हमला करने जिससे वादिनी के पुत्र को गम्भीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना मुगलपुरा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 151/2022 धारा-147/148/149/307/504/506/324/323 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री ताजवर सिंह ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-राजू पुत्र मंगलसेन उर्फ मंगला 2-धर्मेन्द्र पुत्र मंगलसेन उर्फ मंगला 3-सुरेश उर्फ गोलू पुत्र रोशनलाल निवासीगण होली का मैदान थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

6-नाबालिग के साथ कुकर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2022 को वादी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करना तथा वीडियो बनाकर वायरल कर देने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 314/2022 धारा- 377 भा0द0वि0 व धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट व धारा 66(E) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त अजरुद्दीन पुत्र खुशनूद निवासी ग्राम ललवारा थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

7-ज्वैलरी चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2022 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम गोपीवाला थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर ज्वैलरी, मोबाईल एवं रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-388/2022 धारा-380 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को उ0नि0 श्री प्रेमचन्द शर्मा थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त मौ0 तस्लीम पुत्र मौ0 शारुन नि0 ढकिया पीरु थाना डिलारी, मुरादाबाद को एक जोड़ी पाजेब व एक चैन सफेद धातु सहित गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा-411 भादवि की वृद्धि की गयी।

8-दहेज की मांग कर जान से मारने की नियत से महिला को आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2022 को वादिनी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर तथा देहज की मांग करने तथा मांग पूरी न होने पर वादिनी की पुत्री को कमरे में बंधक बनाकर डीजल तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा देने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-313/2022 धारा-498ए/323/504/342/307 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना मैनाठेर ने मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त इन्तजार पुत्र जरार निवासी ग्राम तख्तपुर अल्ला उर्फ नानकार थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

9-सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर महिला थाना प्रभारी की वीडियो एडिट कर, वायरल करने व वीडियो की ऐवज में रूपयों की मांग करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत कराना है आज दिनांक 28.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती दीपा त्यागी ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की वीडियो बनाकर एडिट कर, वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देते हुये रूपयो की मांग करने तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो को वायरल करने आदि के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 920/2022 धारा-384,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को निरीक्षक श्री अवध बिहारी थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त परवेज अंसारी पुत्र इकबाल हुसैन निवासी मौहल्ला डेरिया थाना नागफनी,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।